

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2016 (फाल्गुन 11, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 5 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित विवरण वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री पर्यटन, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, मेहरबान सिंह रावत, सदस्य, श्योपुर एवं मुरैना जिले में अनुबंध के अनुसार सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जितू पटवारी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कृषकों को न दिये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोक नगर जिले के ग्राम मल्हारगढ़ में पेयजल हेतु विद्युत मोटर की व्यवस्था किये जाने,

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम टेकापार से पीपर पानी तक 07 कि.मी. सड़क का निर्माण कराये जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम सुन्दरपुरा की सरकारी भूमि से कब्जा हटाये जाने,

(4) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम देवपुरा से दीवड़िया तक पक्का सड़क मार्ग बनाने,

(5) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के पुजापुरा हायर सेकेण्ड्री विद्यालय में कृषि संकाय शुरू किये जाने,

(6) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम दुल्हैनी एवं इमलिया घाट के आसन नदी पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने,

(7) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम रन्हाईकला से कुकरावद रोड पर मटकुल नदी पर रपटा निर्माण किये जाने, तथा

(8) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम भाटखेडी से खेसला तक प्रधानमंत्री सड़क से जोड़े जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

6. वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 29 फरवरी, 2016

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा